

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार स प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४०९] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर ११, १९७०/कार्तिक २०, १८९२

No. 409] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 1970/KARTIKA 20, 1892

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

ESTATE DUTY

New Delhi, the 11th November 1970

S.O. 3719.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 1190, dated the 25th March, 1970 published at page 464, in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 25th March, 1970, the entries against Sl. No. 78 viz. "Shri I. C. Hulkoti, Gadag, Dist. Dharwar", under the Category "Engineers/Surveyors/Architects" shall be deleted, and at page 466 of the said notification under the Category "IV-Specialists in Agriculture and Farm Valuation" after Sl. No. 3 the following shall be inserted:—

"3A. Shri I.C. Hulkoti, Gadag, Dist. Dharwar".

[No. 5/644/69-E.D.]

BALBIR SINGH, Dy Secy.

(1821)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि पत्र

सम्पदा शुल्क

नई दिल्ली, 11 नवम्बर 1970

का० भा० 3719.—भारत के राजपत्र, तारीख 25 मार्च, 1970 के भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (II) के पृष्ठ 464 (अंग्रेजी में) पर प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० भा० 1190 तारीख 25 मार्च 1970 में क्रम संख्या 78 के सामने की प्रविष्टियों अर्थात् "इन्जीनियर/सर्वेक्षक/वास्तु शिल्पी" के प्रवर्ग के अन्तर्गत "श्री आई० सी० हलकोटी, गदाग जिला धारवाड़," को निकाल दिया जाएगा और उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 466 (अंग्रेजी में) पर प्रवर्ग "कृषि और फार्म—मूल्यांकन विशेषज्ञ" के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

"3क० श्री आई० सी० हलकोटी गदाग, जिला धारवाड़"

[सं० 5/644/69-इ० बी०]

बलबीर सिंह, उप सचिव ।